

शादी में नहीं आए मेहमान तो दुल्हन ने भेज दिया 17700 रुपए का बिल



शादियों में मेहमानों के लिए भोजन और समारोह के आसपास की अन्य तैयारियां में जमकर खर्चा होता। पूरी शादी की योजना बनाने में लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और इतना खर्चा होने के बाद अगर कोई मेहमान इसमें शामिल न हो तो यह काफी निराश करने वाला होता है और खाना बर्बाद होता देख लोगों को काफी गुस्सा भी आता है। ऐसे ही एक शादी समारोह में, एक नवविवाहित जोड़े ने इससे परेशान होने की बजाय शादी के खाने की लागत वसूलने का अनूठा तरीका निकाला। अब सोशल मीडिया पर उनके इस तरीके के तारीफ कर रहे हैं।

शादी के खाने की लागत वसूल करने के लिए, दुल्हन ने एक विशेष चालान बनाया और इसे उन मेहमानों को भेजा, जो निमंत्रण मिलने के बावजूद शादी में शामिल नहीं हुए थे। इन मेहमानों को 240 डॉलर (17,700 रुपये) का भुगतान करने के लिए कहा गया। इस इनवाँइस को ट्विटर पर हफिंगटन पोस्ट के वरिष्ठ फ्रंट पेज संपादक फिलिप लुईस ने साझा किया। चालान पर प्रतिक्रिया देते हुए, लुईस ने ट्वीट किया, “मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी शादी के रिसेप्शन का चालान देखा है।”

चालान में लिखा है कि शादी का रिसेप्शन नेग्रिल, जमैका के एक रिसॉर्ट रॉयलटन नेग्रिल में हुआ था। भेजे जा रहे बिल में लिखा था: “नो कॉल, नो शो गेस्ट।” बिल में प्रति शादी के रिसेप्शन डिनर के लिए 120 डॉलर की “यूनिट प्राइस” का भी उल्लेख किया गया था और चूंकि दो मेहमान नहीं आए थे, इसलिए कुल लागत \$ 240 थी। चालान 18 अगस्त का है और इसमें शादी के मेहमानों को राशि का भुगतान करने के लिए एक महीने की समय सीमा दी गई है।

रसीद में एक नोट भी था, जिसमें लिखा था, “यह चालान आपको भेजा जा रहा है क्योंकि आपने अंतिम हेडकाउंट के दौरान शादी के रिसेप्शन में आने का वादा किया था। उपरोक्त राशि आपकी व्यक्तिगत सीटों की लागत है। चूंकि आपने हमें कॉल नहीं किया या हमें उचित सूचना नहीं दी कि आप उपस्थित नहीं होंगे, यह वह राशि है जो आप हमें अपनी सीट का अग्रिम भुगतान करने के लिए देते हैं। आप ज़ेले या पेपाल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें और हमें बताएं कि भुगतान का कौन सा तरीका आपके लिए कारगर है। शुक्रिया !”